

जवाहर नवोदय विद्यालय कोल्लम, केरल
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA KOLLAM, KERALA

EACH ONE PLANT ONE
MASS PLANTATION PROGRAMME

DATE: 21/07/2018

TIME : 11.00 AM

प्रतिवेदन



दिनांक 21-जुलाई 2018 को जवाहर नवोदय विद्यालय कोल्लम के तत्वावधान में '**प्रत्येक आदमी एक वृक्ष**' / **EACH ONE PLANT ONE MASS PLANTATION PROGRAMME** मनाया गया | इस सिलसिले में करीब 150 से अधिक पौधे लगाए गए |

सुबह ही विद्यालय परिसर व प्रांगण को सजाया गया था | अभिभावकों को भी निमंत्रण पहले से भेजा गया था | प्रातः 10.00 बजे से अभिभावकों का आना शुरू हो गया | 10.30 से पहले सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ व पौधा देकर स्वागत हुआ | कार्यक्रम की शुरूआत विद्यालय प्रार्थना हाल में आयोजित सभा से हुई | सभा का अध्यक्ष विद्यालय प्राचार्या श्रीमती जिता के नायर थी | उपप्राचार्या श्रीमती जेनी जोस ने स्वागत भाषण दिया |



मुख्य अतिथि श्रीमती श्यामला अम्मा , नगरपालिका की अध्यक्ष ने सभा का उद्घाटन किया | उप अध्यक्ष श्री मुकेश ने भी पौधा लगाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई | फोरस्ट विभाग के रेंज अफसर सहित कई अफसर सभागार में उपस्थित थे | वन विभाग ने छात्रों के लिए कई पौधों का आयोजन किया था | रेंज अफसर ने यह बताया कि यह विद्यालय पहले से हरियाली से सम्पन्न है फिर भी विद्यालय के लिए पौधों की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति वन विभाग द्वारा की जाएगी | राष्ट्रीय हरित सेना के संयोजक श्री सुरेशकुमार ने यह कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय कोल्लम दस साल पहले ही NGC के महत्वपूर्ण कई पुरस्कार जीत चुका है | केरल पुलिस के इंस्पेक्टर श्री अरुण ने कहा कि दस कुँओं के बराबर एक तालाब है , दस तालाबों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्र समान एक वृक्ष है | विद्यालय पर्यावरण क्लब के संयोजक श्री प्रदीपकुमार ने सभा का धन्यवाद ज्ञापन किया | उन्होंने विद्यालय द्वारा प्राप्त पुरस्कारों के बारे में बताया और जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय कोल्लम द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संबंधी क्रियाकलापों व उनसे हुई उपलब्धियों का व्यौरा प्रस्तुत किया |



राष्ट्रगान से औपचारिक सभा सम्पन्न हुआ | तदनंतर केरल की मशहूर मलयालम कवयित्री श्रीमती सुगतकुमारी द्वारा रचित 'ओरु तई नडां' कविता का दृश्याविष्कार हुआ | सभी अभिभावक अतिथि कर्मचारी और छात्र छात्राएं सब मिलकर फिर समस्त विद्यालय परिसर में पौधे लगाने में जुट गए ||



केरल सरकार के वन विभाग द्वारा दिये गए पौधों के साथ छात्र छात्राएँ व अभिभावक

कार्यक्रम /PROGRAMME

INVOCATION	:	VIDYALAYA CHOIR
WELCOME	:	Mrs. JENY JOSE (VICE PRINCIPAL)
PRESIDENTIAL ADDRESS	:	Mrs. JITHA K NAIR (PRINCIPAL)
INAUGURATION BY THE CHIEF GUEST	:	Mrs. SHYAMALA AMMA (MUNCIPAL CHAIRPERSON , KOTTARAKARA)
GUEST OF HONOUR	:	Mr. MUKESH (VICE CHAIRMAN , KOTTARAKARA MUNICIPALITY)
FELICITATION	:	Mr. BABURAJ PRASAD (RANGE FOREST OFFICER , KOLLAM)
	:	Mr. ROSHAN GEORGE (AGRICULTURAL OFFICER , KOTTARAKARA)
	:	Mr. SUBEDAR MAJOR RAMBABU (IX th KERALA Bn NCC)
	:	Mr. ARUN S (SUB INSPECTOR OF POLICE)
	:	Mr. ARUN GEORGE (Sr. MANAGER , UBI KOTTARAKARA)
	:	Mr. G. SURESH KUMAR (CO-ORDINATOR ,NGC KOLLAM)
	:	Mr. SANDEEP (SEED CO - ORDINATOR)
VOTE OF THANKS	:	Mr. PRADEEP KUMARV. (CO ORDINATOR, ECO CLUB, JNV KOLLAM)

राष्ट्रगान / NATONAL ANTHEM

MASS PLANTATION OF SAPLINGS BY GUEST , STAF , PARENTS, STUDENTS AND MGNREGP VOLUNTEERS

प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पौधे लगाने का कार्यक्रम - विवरण

SI No	Name of JNV	Name of ChiefGuest	No of Participants	No of plants	No of fruit bearing plants	No of Non fruit bearing plant	Remarks
1	JNV Kollam	Mrs. SHYAMALA AMMA (MUNCIPAL CHAIRPERSON KOTTARAKARA)	150	150	80	70	Saplings sponsored by Dept of Forests , Parents etc...





इस प्रकार 'प्रत्येक आदमी एक वृक्ष' / **EACH ONE PLANT ONE MASS PLANTATION PROGRAMME** ने छात्रों के लिए नव्यानुभूति प्रदान की ॥

जिता के नायर
(प्राचार्या)